



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]
No. 164]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2008/माघ 17, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008/MAGHA 17, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

का.आ. 260(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 285/500 कि.मी. से 325/000 कि.मी. (टिन्डीवनम-विल्लूपुरम-तिरुचिरापल्ली सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 285/500 कि.मी. से 325/000 कि.मी. (टिन्डोवनम - विल्लूपुरम - तिरुचिरापल्ली सेक्शन) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	थरनालूर	2/4बी2	निजी	नम	384
				5/1बी1बी1	निजी	नम	237
				5/1बी2बी	निजी	नम	189.5
				5/3बी1बी	निजी	नम	215
				5/3बी2बी	निजी	नम	210
				6सी/5	निजी	नम	256
				7ए/7बी	निजी	नम	433
				46/4ए3	निजी	नम	180
				47/3सी2	निजी	नम	390
				49/2बी2	निजी	नम	73
				49/4ए	निजी	नम	312
				49/4सी2	निजी	नम	129
				50/2ए	निजी	नम	394
				50/2सी2	निजी	नम	126
				50/7ए	निजी	नम	411
				50/7सी2	निजी	नम	135
				55/2बी2	निजी	नम	126
				55/3बी2	निजी	नम	106
				57/2ए1	निजी	नम	65.5
				57/3ए1	निजी	नम	163.5
				59/1जी1ए	निजी	नम	83
				59/1जी2ए	निजी	नम	40.5
				59/1जी3ए	निजी	नम	175
				59/3ए2	निजी	नम	207

[फा. सं. 11015/8/2001/भू. अर्जन/डीजीएम/त्रिची]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION****New Delhi, the 6th February, 2008**

S.O. 200(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.45, on the stretch of land from **Km.285/500 to Km.325/000 (Tindivanam – Villupuram – Tiruchirappalli Section)** in Tiruchirappalli District in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special District Revenue Officer (Land Acquisition), National Highways, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.285/500 to Km.325/000 (Tindivanam - Villupuram - Tiruchirappalli Section) on the National Highway No.45 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiruchirappalli	Tiruchirappalli	Tharanallur	2 4B2	Private	Wet	384
				5/1B1B	Private	Wet	237
				5/1B2B	Private	Wet	189.5
				5/3B1B	Private	Wet	215
				5/3B2B	Private	Wet	210
				6C/5	Private	Wet	256
				7A/7B	Private	Wet	433
				46/4A3	Private	Wet	180
				47/3C2	Private	Wet	390
				49/2B2	Private	Wet	73
				49/4A	Private	Wet	312
				49/4C2	Private	Wet	129
				50/2A	Private	Wet	394
				50/2C2	Private	Wet	126
				50/7A	Private	Wet	411
				50/7C2	Private	Wet	135
				55/2B2	Private	Wet	126
				55/3B2	Private	Wet	106
				57/2A1	Private	Wet	65.5
				57/3A1	Private	Wet	163.5
				59/1G1A	Private	Wet	83
				59/1G2A	Private	Wet	40.5
				59/1G3A	Private	Wet	175
				59/3A2	Private	Wet	207

[F. No. 11015/8/2001/LAQ/DGM/Trichy]

PRABHAKAR, Dy. Secy.